



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]
No. 223]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2008/माघ 26, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2008/MAGHA 26, 1929

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2008

का.आ. 333(अ).—रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 89 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस संबंध में संतुष्ट होने पर कि किसी रेलवे स्टेशन को केवल माल ले जाने के लिए गाड़ी द्वारा बुक किया गया माल बिना किसी विलंब के ऐसे रेलवे स्टेशन से हटाया जाना आवश्यक है और इस उप-धारा के पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा, ऐसे स्टेशनों से बिना विलंब माल हटाने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों को 25-2-2008 से छह माह की अवधि के लिए "अधिसूचित स्टेशन" घोषित करती है, अर्थात् :-

मध्य रेलवे

- 1 अहमद नगर
- 2 अमरावती
- 3 अकोला
- 4 अंबरनाथ गुड्स शेड
- 5 बेलापुर
- 6 बेतूल
- 7 भिगवान
- 8 चन्द्रपुर
- 9 धुले
- 10 जलगांव
- 11 कलमबोली
- 12 कल्याण
- 13 खामगांव

- 14 खंडवा
- 15 कोल्हापुर (गुड मार्किट)
- 16 कुर्दुवाडि
- 17 मिरज
- 18 नागपुर
- 19 नागोधाने
- 20 नंदगांव
- 21 नासिक रोड
- 22 नया मुलुंद गुड्स शेड
- 23 नावासेवा पोर्ट ट्रस्ट
- 24 पुणे
- 25 रोहा
- 26 सांगली
- 27 सोलापुर
- 28 तुर्बे गुड्स कॉम्प्लेक्स
- 29 वाडी बंदर
- 30 वर्धा

पूर्व मध्य रेलवे

- 31 बेगुसराय
- 32 डाल्टनगंज
- 33 डेहरी-ओन-सोन
- 34 धनबाद
- 35 फतुवाह

- 36 गया
37 करपूरीग्राम
38 कोडरमा
39 मोतीहारी
40 मुगलसराय
41 नारायणपुर अनंत

पूर्व रेलवे

- 42 आसनसोल
43 बालीगंज
44 बर्धमान
45 बारासत
46 बरहमपुर कोर्ट
47 भागलपुर (ब.ला.)
48 बज बज
49 चितपुर
50 काशीपुर रोड
51 दम दम कैट
52 दुर्गापुर
53 हाबरा
54 हावड़ा गुड्स
55 हावड़ा पार्सल
56 जसीडीह
57 कल्याणी
58 कृष्णा नगर सिटी जंक्शन
59 मालदा टाउन
60 नैहाटी
61 नया अलीपुर (कोलकाता)
62 रानीगंज
63 सैंथिया
64 सियालदह
65 सियालदह (पार्सल)
66 सोदपुर
67 तापसी
68 टोटामगढ़

पूर्व तट रेलवे

- 69 भद्रक
70 भुवनेश्वर
71 ब्रह्मपुर
72 कटक
73 जाजपुर केंझार रोड
74 खुर्दा रोड
75 मंदिरहसौड़
76 पुरी (पार्सल)
77 रायगडा
78 संबलपुर
79 संबलपुर (पार्सल)

- 80 बिशाखापत्तनम् (पार्सल)
81 विजयानगरम् (पार्सल)

उत्तर रेलवे

- 82 आलमनगर
83 अमृतसर
84 अयोध्या
85 बहादुरगढ़
86 बल्लभगढ़
87 बरेली
88 बाराबंकी
89 बटाला
90 बड़ी ब्राह्मण
91 चंडीगढ़
92 चनेटी
93 दिल्ली किशनगंज
94 ढंडारी कलां
95 फैजाबाद
96 फरीदाबाद
97 गाजियाबाद
98 हरदोई
99 हरथला
100 जगाधरी
101 जालंधर सिटी
102 जालंधर कैट
103 जम्मू तबी
104 कैथल
105 करनाल
106 कुरुक्षेत्र
107 लुधियाना
108 मंडी गोविन्दगढ़
109 मानसा
110 मेरठ मंडी
111 मुरादाबाद
112 मुज़फ्फरनगर
113 नया आजादपुर
114 पानीपत
115 पलवल
116 परतापुर
117 फगवाड़ा
118 रायबरेली
119 राजपुरा
120 रामपुर
121 रोहतक
122 सहारनपुर
123 शाहजहांपुर
124 शकुरबस्ती
125 सोनीपत
126 सब्जी मंडी

- 127 सुरानुस्सी
 128 थॉमसनगंज
 129 तुगलकाबाद
 130 वाराणसी
उत्तर मध्य रेलवे
 131 आगरा कैंट (पार्सल)
 132 आगरा फोर्ट (पार्सल)
 133 अलीगढ़
 134 ग्वालियर
 135 इरदातगंज
 136 झांसी
 137 कानपुर सेंट्रल गुड्स शेड
 138 मथुरा जं.
 139 मुरेना
 140 नैनी
 141 यमुना ब्रिज (गुड्स शेड)
पूर्वोत्तर रेलवे
 142 बस्ती
 143 छपरा जं.
 144 देवरिया सदर
 145 गोंडा
 146 इंदारा जं.
 147 काशीपुर
 148 कुशमी
 149 मऊ जं.
 150 नकहा जंगल
 151 रूद्रपुर सिटी
 152 सिवान
पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे
 153 दीमापुर
 154 धर्म नगर
 155 गुवाहाटी (पार्सल)
 156 करीमगंज
 157 कटिहार
 158 किशनगंज
 159 न्यू बोंगाईगांव (ब. ला.)
 160 न्यू गुवाहाटी
 161 न्यू जलपाईगुड़ी (ब. ला.)
 162 नॉर्थ लखीमपुर
 163 सिलचर
 164 तिनसुकिया गुड्स
उत्तर पश्चिम रेलवे
 165 आबू रोड (पार्सल)
 166 अजमेर (पार्सल)
 167 ब्यावर (पार्सल)
 168 भगत की कोठी
 169 भीलवाड़ा (पार्सल)
 170 जयपुर (पार्सल)
 171 जोधपुर (पार्सल)
 172 कनकपुरा (गुड्स)
 173 रेवाड़ी (ब. ला.)
 174 श्रीगंगानगर
 175 उदयपुर सिटी (पार्सल)
दक्षिण रेलवे
 176 अरक्कोणम
 177 कालीकट (पार्सल कार्यालय)
 178 कोचिन हार्बर टर्मिनस
 179 कोयम्बटूर नॉर्थ जं.
 180 कोयम्बटूर (पार्सल कार्यालय)
 181 दिंडीगुल (ब. ला.)
 182 एर्णाकुलम गुड्स
 183 एर्णाकुलम जं. (पी.ओ.)
 184 ईरोड जं.
 185 ईरोड पार्सल ऑफिस
 186 कटपाडि (ब. ला.)
 187 कुडालनगर
 188 मद्रास पार्सल
 189 मद्रास साल्ट कोटर्स
 190 मंगलौर
 191 न्यू पार्सल कॉम्प्लैक्स (साल्ट कोटर्स)
 192 कोल्लम (ब. ला. गुड्स)
 193 रायपुरम
 194 सेलम जंक्शन
 195 सेलम मार्किट (ब. ला.)
 196 त्रिचूर
 197 तिरुच्चिरापल्ली गुड्स (ब. ला. और मी. ला.)
 198 त्रिवेंद्रम सेंट्रल (पी.ओ.)
 199 विरुद्ध नगर (ब. ला.)
दक्षिण मध्य रेलवे
 200 आदिलाबाद
 201 अनंतपुर
 202 औरंगाबाद
 203 कडपा
 204 जगगाय्यापेट टाउन
 205 जलना
 206 काकीनाडा पोर्ट
 207 करीमनगर
 208 मिरयालगुड़ा
 209 नलगोंडा
 210 नांदेड़
 211 नन्द्याल
 212 निज़ामाबाद
 213 परभनी
 214 परली वैजनाथ
 215 पेडापल्ली
 216 रायचूर

217 राजामुंद्री	252 पांसकुड़ा
218 रेडडीपेलम गुड्स शेड	253 पुरुलिया
219 रेणिंगुंटा	254 राधानगर
220 सनथनगर ओल्ड गुड्स शेड	255 राज गंगपुर गुड्स शेड
221 एसएनएजी	256 राउरकेला
222 ताडेपल्लीगूडेम	257 रुकनी
223 विजयवाड़ा	258 रुपसा
224 वारगल	259 शालीमार
दक्षिण पूर्व रेलवे	260 सोरो
225 अबादा/एसजीटीवाई	261 टाटा नगर
226 आद्रा	262 टाटीसिलवाई
227 बालासोर	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
228 बांकुड़ा	263 अकलतारा
229 भागा स्टेशन (भागा गुड्स शेड)	264 आमगांव
230 वीरमित्रपुर गुड्स शेड	265 बाराद्वार
231 विष्णुपुर	266 बेलहा
232 बोकारो स्टील सिटी	267 भाटापारा
233 बर्नपुर	268 बिलासपुर
234 चांडिल	269 बिश्रामपुर
235 चन्द्रकोना रोड	270 चंपा
236 चौराशी	271 चंदिया रोड
237 धल भूमगढ़	272 छिंदवाड़ा
238 डोंगापोसी	273 डोंगरगढ़
239 जलेश्वर	274 दुर्ग
240 झाड़ग्राम	275 गोंदिया
241 झारसुगुड़ा	276 इटावरी
242 झांटीपहाड़ी	277 कलुमना
243 हटिया	278 रायपुर स्टोर डिपो (आरएसडी)
244 कलाईकुंडा	279 रायपुर
245 खड़गपुर	280 रामटेक
246 खंता पाड़ा	281 रूपौंद
247 लोहरडागा गुड्स शेड	282 राजनंदगांव
248 मिदनापुर	283 रायगढ़
249 मूरी	284 शहडोल
250 नामकोम	285 तिलडा
251 नीमपुरा	286 तिरोड़ी

287 उमरिया

288 उसलापुर

289 षडसा

दक्षिण पश्चिम रेलवे

290 अमरगोल

291 बैय्यप्पनहल्ली

292 बेंगलूरु सिटी (पार्सल)

293 बेलगाम

294 बेल्लारी

295 बीजापुर

296 देवनगिरि

297 गुंजी

298 हसन

299 होसपेट

300 हुबली (गुड्स)

301 हुबली (पार्सल)

302 कलेम

303 कोप्पल

304 मुनीराबाद

305 मैसूर

306 न्यू मैसूर गुड्स टर्मिनल

307 सन्वोरडेम (कुडाचेरे)

308 सैटेलाइट गुड्स टर्मिनल/व्हाइट फील्ड

309 शिमोगा टाउन

310 तिनईचाट

311 वास्को-द-गामा

312 यशवंतपुर

पश्चिम रेलवे

313 अहमदाबाद (ब.ला. और मी.ला.) पार्सल

314 आणंद

315 अंकलेश्वर

316 बांद्रा टर्मिनस (सामान)

317 भरुच

318 भावनगर टर्मिनस

319 भीमासर

320 चित्तौड़गढ़

321 दाहोद

322 देवास

323 गांधीधाम

324 गोधरा

325 हापा

326 इंदौर (ब.ला.) (पार्सल)

327 इंदौर (मी.ला.) (गुड्स और पार्सल)

328 जोगेश्वरी ए.टी. (गुड्स)

329 जूनागढ़

330 कांडला पोर्ट

331 कंकड़िया

332 लक्ष्मीबाई नगर (गुड्स)

333 मेहसाणा

334 मुंबई सेंट्रल (सामान)

335 मुंद्रा पोर्ट टर्मिनल

336 नदियाड

337 नागदा (पार्सल)

338 पार्सल डिपो ग्रांट रोड

339 राजकोट

340 रनोली (गुड्स)

341 रतलाम (ब.ला. और मी.ला.) (पार्सल)

342 सूरत (गुड्स और पार्सल)

343 उज्जैन

344 वडोदरा जंक्शन (पार्सल) और बडोदरा मार्शलिंग यार्ड (गुड्स)

345 वीरमगांव

346 विडमिल

पश्चिम मध्य रेलवे

347 भोपाल

348 कच्छपुरा

349 सतना

350 कोटा

351 कटनी-मुरवाड़ा (गुड्स शेड)

[सं. टी.सी.-1/2001/223/1-पार्ट सी]

श्री प्रकाश, कार्यपालक निदेशक, यातायात वाणिज्य (दर)
रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th February, 2008

S.O. 333(B).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 89 of the Railways Act, 1989 (No. 24 of 1989), the Central Government, being satisfied that it is necessary that the goods booked by trains intended solely for the carriage of goods to any Railway Station should be removed without delay from such Railway Station and having regard to the factors specified in the first proviso to that sub-section hereby declares the following Railway Stations as 'Notified Stations' for the purpose of removal of goods without delay from such Stations for a period of six months with effect from 25-2-2008 namely:

Central Railway

- 1 Ahmednagar
- 2 Amravati
- 3 Akola
- 4 Ambernath Goods Shed
- 5 Belapur
- 6 Betul
- 7 Bhigwan
- 8 Chandrapur
- 9 Dhule
- 10 Jalgaon
- 11 Kalamboli
- 12 Kalyan
- 13 Khamgaon
- 14 Khandwa
- 15 Kolhapur (Gur Market)
- 16 Kurduwadi
- 17 Miraj
- 18 Nagpur
- 19 Nagothane
- 20 Nandgaon
- 21 Nasik Road
- 22 New Mulund Goods Shed
- 23 Nhava Sheva Port Trust
- 24 Pune
- 25 Roha
- 26 Sangli
- 27 Solapur

28 Turbhe Goods Complex

29 Wadi Bunder

30 Wardha

East Central Railway

31 Begusarai

32 Daltonganj

33 Dehri-on-sone

34 Dhanbad

35 Fatuwah

36 Gaya

37 Karpuri Gram

38 Koderma

39 Motihari

40 Mughalsarai

41 Naryanpur Anant

Eastern Railway

42 Asansol

43 Ballygunge

44 Bardhaman

45 Barasat

46 Berhampore Court

47 Bhagalpur (B.G.)

48 Budge Budge

49 Chitpur

50 Cossipore Road

51 Dum Dum Cantt.

52 Durgapur

53 Habra

54 Howrah Goods

55 Howrah Parcel

56 Jasidih

57 Kalyani

58 Krishnanagar City Jn.

59 Malda Town

60 Naihati

61 New Alipur (Kolkata)

62 Raniganj

63 Sainthia

64 Sealdah

65 Sealdah (Parcel)

66 Sodepur

67 Tapasi	106 Kurushetra
68 Titagarh	107 Ludhiana
East Coast Railway	108 Mandi Gobindgarh
69 Bhadrak	109 Mansa
70 Bhubaneswar	110 Meerut Mandi
71 Brahmapur	111 Moradabad
72 Cuttack	112 Muzaffarnagar
73 Jajpur Keonjhar Road	113 Naya Azadpur
74 Khurda Road	114 Panipat
75 Mandirhasaud	115 Palwal
76 Puri (Parcel)	116 Partapur
77 Rayagada	117 Phagwara
78 Sambalpur	118 Rae Bareli
79 Sambalpur (Parcel)	119 Rajpura
80 Visakhapatnam (Parcel)	120 Rampur
81 Vizianagram (Parcel)	121 Rohtak
Northern Railway	122 Saharanpur
82 Alamnagar	123 Shahjahanpur
83 Amritsar	124 Shakurbasti
84 Ayodhya	125 Sonipat
85 Bahadurgarh	126 Subzi Mandi
86 Ballabgarh	127 Suranussi
87 Bareilly	128 Thomsonganj
88 Barabanki	129 Tugalakabad
89 Batala	130 Varanasi
90 Bari Brahman	North Central Railway
91 Chandigarh	131 Agra Cantt (Parcel)
92 Chaneti	132 Agra Fort (Parcel)
93 Delhi Kishanganj	133 Aligarh
94 Dhandari Kalan	134 Gwalior
95 Faizabad	135 Iradatganj
96 Faridabad	136 Jhansi
97 Ghaziabad	137 Kanpur Central Goods Shed
98 Hardoi	138 Mathura Jn.
99 Harthala	139 Morena
100 Jagadhri	140 Naini
101 Jalandhar City	141 Yamuna Bridge (Goods Shed)
102 Jalandhar Cantt.	North Eastern Railway
103 Jammu Tawi	142 Basti
104 Kaithal	143 Chhapra Jn.
105 Karnal	144 Deoria Sadar

145 Gonda	183 Ernakulam Jn. (PO)
146 Indara Jn.	184 Erode Jn.
147 Kashipur	185 Erode Parcel Office
148 Kushmi	186 Katpadi (B.G.)
149 Mau Jn.	187 Kudalnagar
150 Nakha Jungle	188 Madras Parcel
151 Rudrapur City	189 Madras Salt Cotaurs
152 Siwan	190 Mangalore
Northeast Frontier Railway	191 New Parcel Complex (Salt Cotaurs)
153 Dimapur	192 Quilon (B.G. Goods)
154 Dharmanagar	193 Royapuram
155 Guwahati (Parcel)	194 Salem In.
156 Karimganj	195 Salem Market (B.G.)
157 Katihar	196 Trichur
158 Kishanganj	197 Tiruchirapalli Goods (B.G. and M.G.)
159 New Bongaigon (B.G.)	198 Trivandrum Central (PO)
160 New Guwahati	199 Virudhunagar (B.G.)
161 New Jalpaiguri (B.G.)	South Central Railway
162 North Lakhimpur	200 Adilabad
163 Silchar	201 Ananatpur
164 Tinsukia Goods	202 Aurangabad
North Western Railway	203 Cuddappah
165 Abu Road (Parcel)	204 Jaggayyapet Town
166 Ajmer (Parcel)	205 Jahna
167 Beawar (Parcel)	206 Kakinada Port
168 Bhagat ki Kothi	207 Karimnagar
169 Bhilwara (Parcel)	208 Miryalaguda
170 Jaipur (Parcel)	209 Nalgonda
171 Jodhpur (Parcel)	210 Nanded
172 Kanakpura (Goods)	211 Nandyal
173 Rewari (B.G.)	212 Nizamabad
174 Sri Ganga Nagar	213 Parbhani
175 Udaipur City (Parcel)	214 Parli Vaijnath
Southern Railway	215 Peddapalli
176 Arakkonam	216 Raichur
177 Calicut (Parcel Office)	217 Rajahmundry
178 Cochin Harbour Terminus	218 Reddipalem Goods Shed
179 Coimbatore North In.	219 Renigunta
180 Coimbatore (Parcel Office)	220 Sanathnagar Old Goods Shed
181 Dindigul (B.G.)	221 SNAG
182 Ernakulam Goods	222 Tadepalligudem

223 Vijayawada

224 Warangal

South Eastern Railway

225 Abada/Sgty

226 Adra

227 Balasore

228 Bankura

229 Bhaga Station (Bhaga Goods Shed)

230 Birmitrapur Goods Shed

231 Bishnupur

232 Bokaro Steel City

233 Burnpur

234 Chandil

235 Chandrakona Road

236 Chaurashi

237 Dalbhumgarh

238 Dongaposi

239 Jaleswar

240 Jhargram

241 Jharsuguda

242 Jhantipahari

243 Hatia

244 Kalaikunda

245 Kharagpur

246 Khantapara

247 Lohardaga Goods Shed

248 Midnapur

249 Muri

250 Namkom

251 Nimpura

252 Panskura

253 Purulia

254 Radhanagar

255 Rajgangpur Goods Shed

256 Rourkela

257 Rukni

258 Rupsa

259 Shalimar

260 Soro

261 Tatanagar

262 Tatisilvai

South East Central Railway

263 Akaltara

264 Amgaon

265 Baradwar

266 Belha

267 Bhatapara

268 Bilaspur

269 Bishrampur

270 Champa

271 Chandia Road

272 Chhindwara

273 Dongargarh

274 Durg

275 Gondia

276 Itwari

277 Kalumna

278 Raipur Store Depot (RSD)

279 Raipur

280 Ramtake

281 Rupaund

282 Rajnandgaon

283 Raigarh

284 Shahdol

285 Tilda

286 Tirodi

287 Umari

288 Usalapur

289 Wadsa

South Western Railway

290 Amargol

291 Baiyappanahalli

292 Bangalore City (Parcel)

293 Belgaum

294 Bellary

295 Bijapur

296 Davangere

297 Gunji

298 Hassan

299 Hospet

300 Hubli (Goods)

301 Hubli (Parcel)

- 302 Kalem
- 303 Koppal
- 304 Munirabad
- 305 Mysore
- 306 New Mysore Goods Terminal
- 307 Sanvordam (Kudachere)
- 308 Sattellite Goods Terminal/White Field
- 309 Shimoga Town
- 310 Tinaighat
- 311 Vasco-da-gama
- 312 Yeshwantpur

Western Railway

- 313 Ahmedabad (BG & MG) Parcel
- 314 Anand
- 315 Ankleshwar
- 316 Bandra Terminus (Luggage)
- 317 Bharuch
- 318 Bhavnagar Terminus
- 319 Bhimasar
- 320 Chittaurgarh
- 321 Dahod
- 322 Dewas
- 323 Gandhidham
- 324 Godhra
- 325 Hapa
- 326 Indore (B.G.) (Parcel)
- 327 Indore (M.G.) (Goods & Parcel)

- 328 Jogeshwari AT (Goods)
- 329 Junagadh
- 330 Kandla Port
- 331 Kankariya
- 332 Lakshmibai Nagar (Goods)
- 333 Mehsana
- 334 Mumbai Central (Luggage)
- 335 Mundra Port Terminal
- 336 Nadiad
- 337 Nagda (Parcel)
- 338 Parcel Depot Grant Road
- 339 Rajkot
- 340 Ranoli (Goods)
- 341 Ratlam (B.G. & M.G.) (Parcel)
- 342 Surat (Goods & Parcel)
- 343 Ujjain
- 344 Vadodara Jn. (Parcel) & Vadodara Marshalling Yard (Goods)
- 345 Virangam
- 346 Windmill

West Central Railway

- 347 Bhopal
- 348 Kachhpura
- 349 Satna
- 350 Kota
- 351 Katni-Murwara (Goods Shed)

[No. TC-I/2001/223/1-Pt. C.]

SHRI PRAKASH, Executive Director Traffic Commercial
(Rates) Railway Board